

विशेष रिपोर्ट

बेस मेटल

अक्टूबर 2023



एल्युमीनियम



तांबा



लेड



जिंक




moneywise. be wise.

सितंबर में, तांबे को छोड़कर, शेष बेस मेटल की कीमतों में सभी एक्सचेंजों पर बढ़त दर्ज की गई। बढ़ते भंडार और डॉलर में तेजी के कारण एलएमई पर तांबे की कीमतों लगभग 2% और एमसीएस पर लगभग 4% की गिरावट हुई। सितंबर तिमाही में एलएमई तांबे का भंडार 140% बढ़कर 167,825 टन हो गया, जो 18 वर्षों में सबसे बड़ी तिमाही वृद्धि है। जिंक की कीमतों में 2022 की पहली तिमाही के बाद से 11% की सर्वश्रेष्ठ तिमाही बढ़त दर्ज की गई। पिछली तिमाही में चीन का संपत्ति संकट बेस मेटल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। आईएनजी थिंक ने बढ़ती मांग के संकेतक के रूप में एलएमई गोदामों में जिंक के रद्द किए गए वारंट में वृद्धि और शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पर घटते भंडार की ओर इशारा किया। शीर्ष उपभोक्ता चीन में लचीली मांग, एक्सचेंज गोदामों में घटते भंडार और देश के मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में मजबूत गतिविधि के कारण एलएमई पर एल्युमीनियम की कीमतें 6% से अधिक बढ़ गईं। सितंबर में चीन के मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में विस्तार, लेकिन अगस्त की तुलना में धीमी गति से, ने उम्मीदों को बढ़ाने में मदद की है कि दुनिया में औद्योगिक धातुओं के प्रमुख उपभोक्ता देश में स्थिरता आ रही है।

आउटलुक


- बेस मेटल की कीमतें मिले-जुले फंडामेंटल के आधार पर अलग-अलग दिशा में कारोबार कर सकती हैं। वैश्विक मंदी के बढ़ते डर, शीर्ष उपभोक्ता चीन में सुस्त मांग और आपूर्ति में सुधार से बाजार पर दबाव पड़ सकता है जबकि कमजोर डॉलर और चीन में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रोत्साहन की उम्मीद से कीमतों को कुछ मदद मिल सकती है। डॉलर की चाल और चीन के मैनुफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्रों के प्रति निवेशकों के सेंटीमेंट के कारण इस महीने में कीमतों के अस्थिर रहने की उम्मीद है।
- चीन के संपत्ति संकट को स्थायी आर्थिक रिकवरी के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि निजी डेवलपर्स के बीच डिफॉल्ट के बढ़ते जोखिम से देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिरता के खतरे में पड़ने की आशंका है।
- यद्यपि चीन का संकटग्रस्त संपत्ति क्षेत्र अभी भी उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि चीन की हरित अर्थव्यवस्था ने इस साल अब तक महत्वपूर्ण ताकत दिखाई है, जिसके परिणामस्वरूप हरित संक्रमण से संबंधित धातुओं, जैसे तांबे की मांग में वृद्धि हुई है।
- चीन का औद्योगिक उत्पादन अगस्त में एक साल पहले की तुलना में 4.5% बढ़ गया, जो 3.9% वृद्धि के अनुमान से अधिक है और इस औद्योगिक उत्पादन के भीतर, उपकरण का मूल्य वर्धित निर्माण साल दर साल 5.4% बढ़ा है।
- दुनिया में तांबे के सबसे बड़े उत्पादक चिली में तांबे का उत्पादन अगस्त में साल-दर-साल 2.7% बढ़कर 434,206 टन हो गया।
- 2023 के पहले सात महीनों में, चीन में स्पष्ट उपयोग (बांडेड/असूचित स्टॉक में परिवर्तन को छोड़कर) के आधार पर विश्व स्तर पर रिफाईंड तांबे का लगभग 215,000 टन का प्रारंभिक सरप्लस रहा है। चीन के बांडेड स्टॉक में अनुमानित परिवर्तनों को समायोजित करके देखा जाय तो विश्व स्तर पर रिफाईंड तांबे के बाजार में लगभग 243,000 टन का सरप्लस रहा है।
- एलएमई में तांबे का भंडार जुलाई के मध्य से 211% बढ़कर 168,425 टन हो गया।
- पिछले कुछ महीनों में चीन में एल्युमीनियम की मांग में सुधार हो रहा है, जबकि शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज द्वारा निगरानी किए गए गोदामों में एल्युमीनियम स्टॉक में गिरावट हो रही है। एसएचएफई में एल्युमीनियम स्टॉक मई के मध्य से 75% कम होकर 79,194 टन रह गया है और दिसंबर 2016 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा जारी व्यापार आंकड़ों के अनुसार जापान का प्राथमिक एल्युमीनियम आयात अगस्त में एक साल पहले की तुलना में 16% कम होकर 95,630 मीट्रिक टन रह गया, जिससे इस साल अब तक की गिरावट 30% हो गई है।

सितंबर-2023 में बेस मेटल की कीमतों में बदलाव (%)



स्रोत : एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स

जनवरी-सितंबर 2023 में बेस मेटल की कीमतों में बदलाव



स्रोत : एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स



एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर लेड वायदा पिछले हफ्ते थोड़ा कम होकर 188.00 पर बंद हुआ है। वर्तमान में कीमतें 18 दिनों के ईएमए स्तर 185.00 के नजदीक कारोबार कर रही हैं। मोमेंट ऑसिलेटर स्टोकेस्टिक (14,3,3) अब सकारात्मक विचलन देख रहा है और छोटी से मध्यम अवधि के लिए तेजी का रुझान भी प्रदान कर रहा है। अब 191 पर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस देखा जा रहा है, इस स्तर से ऊपर कारोबार करने पर इस महीने में 197/202 की ओर तेजी देखी जा सकती है और यदि कीमतें 185.00 के सपोर्ट स्तर से नीचे बनी रहती हैं तो 177 एवं 170 की ओर क्रमशः नीचे तक जा सकती है।



एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर ज़िंक वायदा पिछले सप्ताह बढ़कर 232.25 पर बंद हुआ है। वर्तमान में कीमतें 200 दिनों के ईएमए स्तर 235.00 से नीचे और साप्ताहिक स्तर पर कम होती सपोर्ट ट्रेड लाइन स्तर 230 से नीचे कारोबार कर रही हैं। पिछले हफ्ते चार्ट पर तेजी के रूझान वाला हैमर पैटर्न बना हुआ है। इसलिए चार्ट पैटर्न के अनुसार यदि कीमतें 230 से ऊपर बरकरार रहती है तो आगे अच्छी 237/250 तक तेजी देखी जा सकती है। अब तत्काल सपोर्ट 217.00 के नजदीक है। यदि कीमतें 217.00 के स्तर से नीचे टूटती है, तो नीचे की ओर 202/190 की ओर लुढ़क सकती है।

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉमिटेड नेशनल कॉमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कॉमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएफएआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एंथॉरिटी द्वारा सिक्योरिटीज मार्केट/कॉमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कॉमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

दिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्कर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सिक्योरिटीज एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कॉमोडिटी में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कॉमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कॉमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और प्रोकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।